



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 6—मार्च 12, 2010 (फाल्गुन 15, 1931)

No. 10]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 6—MARCH 12, 2010 (PHALGUNA 15, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	433	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	191	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	497
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	309	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	735
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	77
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं.....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*		

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	433	than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	191	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	309	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	497
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	735
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	77
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(युवा कार्यक्रम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी 2010

संकल्प

सं. एफ. 15-4/2002-युवा सेवा.-II--दिनांक 1 अगस्त, 2008 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) की कार्यकारी परिषद् का निम्नानुसार पुनर्गठन किया गया है :

i)	केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष
ii)	युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली	वरिष्ठ उपाध्यक्ष
iii)	सचिव, युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष(पदेन)
iv)	श्री सी०आर० केसवन, 53 बाजुल्ला रोड, टी नगर, चेन्नै, तमिलनाडु 600017	उपाध्यक्ष
v)	संयुक्त सचिव, (युवा कार्यक्रम), युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
vi)	वित्तीय सलाहकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
vii)	निदेशक, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	सदस्य
viii)	कार्यक्रम सलाहकार, एनएसएस, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
ix)	डा० एम०वी० राजीव गौड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर, आईआईएम, बंगलोर, 1361, 9 क्रॉस, जेपी नगर, फेस-1, बंगलोर-560078	सदस्य
x)	श्रीमती जयंती नटराजन, अलवरपेट, चेन्नै-600 004	सदस्य
xi)	श्री सी० अपोक जमीर, एमएलए तथा पूर्व सांसद (राज्य सभा), वालूजेन, हॉल नागार्जुन, दीमापुर, नागालैण्ड-797112	सदस्य
xii)	श्री हर्ष मंडेर, फ्लैट नं० 6233, सी-6, वसंतकुंज, नई दिल्ली-	सदस्य

	110070	
xiii)	कुलपति (पदनाम), गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, गांधीग्राम-624 302, जिला- डिंडीगुल, तमिलनाडु आईडीएआरए के प्रतिनिधि के रूप में	सदस्य
xiv)	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के 4 प्रभागों के संकाय से (बारी-बारी से) एक प्रतिनिधि	सदस्य
xv)	श्री दुली चंद जैन, माइलापोर, चेन्नै-600 004	सदस्य
xvi)	संकाय प्रमुख	सदस्य-सचिव

2. क्र०सं० (ii) व (iii) पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य तथा अन्य पदेन सदस्य 7 अगस्त, 2007 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक उनके उत्तराधिकारियों का निर्वाचन/नामांकन नहीं हो जाता इनमें से जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे। उपर्युक्त क्र०सं० (iv), (ix) व (xi) क्रमशः 14-12-2007, 10-6-2008 तथा 10-6-2008 से प्रभावी होंगे।

3. आरजीएनआईआईडी की कार्यकारी परिषद में कार्यरत मंत्री/संसद सदस्य/गैर-सरकारी सदस्य बैठक में भाग लेने पर नियमानुसार यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

4. तदनुसार पूर्व में इस संबंध में जारी सभी आदेश/संकल्प संशोधित माने जाएंगे।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए तथा सभी संबंधित को प्रेषित की जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को भेजी जाए।

ए . के. सरन
अवर सचिव

संकल्प

सं. एफ. 15-4/2002-युवा सेवा.-II--दिनांक 1 अगस्त, 2008 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) के सलाहकार बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन किया गया है :

i)	केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष
ii)	युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली	वरिष्ठ उपाध्यक्ष
iii)	सचिव, युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष(पदेन)
iv)	संयुक्त सचिव, (युवा कार्यक्रम), युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
v)	श्री सी०आर० केसवन, 53 बाजुल्ला रोड, टी नगर, चेन्नै, तमिलनाडु 600017	सदस्य
vi)	वित्तीय सलाहकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
vii)	कार्यक्रम सलाहकार, एनएसएस, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
viii)	श्रीमती जयंती नटराजन, अलवरपेट, चेन्नै-600 004	सदस्य
ix)	श्री हर्ष मंडेर, फ्लैट नं० 6233, सी-6, वसंतकुंज, नई दिल्ली-110070	सदस्य
x)	कुलपति (पदनाम), गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, डीमड यूनिवर्सिटी, गांधीग्राम-624 302, जिला- डिंडीगुल,	सदस्य

	तमिलनाडु, इडारा के प्रतिनिधि के रूप में	
xi)	आरजीएनआईआईडी के चार प्रभागों के संकाय से (बारी-बारी से) एक प्रतिनिधि	सदस्य
xii)	श्री डुली चंद जैन, माइलापोर, चेन्नै-600 004	सदस्य
xiii)	डा० एम.वी. राजीव गोडा, एसोसिएट प्रोफेसर, आईआईएम, बंगलोर, 1361, 9 क्रॉस, जेपी नगर 1 फेस, बंगलोर-560078	सदस्य
xiv)	श्री सी. अपोक जमीर, एमएलए व पूर्व सांसद (राज्य सभा), वालुजेन, हॉल नागार्जन, दीमापुर, नागालैण्ड-797112	सदस्य
अन्य सदस्य		
xv)	सचिव, उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
xvi)	सचिव, प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार	सदस्य
xvii)	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
xviii)	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
xix)	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली	सदस्य
xx)	सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	सदस्य
xxi)	निदेशक (जीए) पर्यावरण एवं वन्य जीवन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली	सदस्य
xxii)	सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रमशक्ति भवन, नई दिल्ली	सदस्य
xxiii)	सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	सदस्य
xxiv)	सलाहकार (शिक्षा, खेल) योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली	सदस्य
xxv)	महानिदेशक, काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, इंडिया हेबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली	सदस्य
xxvi)	चेयरमैन, यूथ होस्टल्स एसोसिएशन आफ इंडिया, नं० 5 न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	सदस्य

xxvii)	नेशनल कमिशन भारत स्काउट्स व गाइड्स, 16 एमजी मार्ग, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
xxviii)	सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य
xxix)	महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, रक्षा मंत्रालय, वेस्ट ब्लॉक, नं० 4, आर०के० पुरम, नई दिल्ली-66	सदस्य
xxx)	महानिदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली	सदस्य
xxxi)	अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, समाज कल्याण भवन, बी-12, टाटा क्रीसेंट, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली	सदस्य
xxxii) क) दो विख्यात शिक्षाविद जो सामुदायिक कार्य, प्रशिक्षण और विकास में विशेष रुचि रखते हों।	1. डा० परसुरामन, निदेश, टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेस, मुंबई (विख्यात शिक्षाविद)	सदस्य
	2. प्रो० विमला रामचन्द्रन, अध्यक्ष, शिक्षा अनुसंधान एकक, नई दिल्ली (देश के अग्रणीय शिक्षा विशेषज्ञ)	सदस्य
ख) दो महिलाएं जिन्हें महिला विकास में विशेषज्ञता और अनुभव हो।	1. डा० वीना मजूमदार, पूर्व निदेशक, सेंटर फार वूमन डेवलपमेंट स्टडीज (वूमन स्टडीज एक्सपर्ट)	सदस्य
	2. डा० रूपा बी शाह, पूर्व वाइस चांसलर, एसएनडीटी विश्वविद्यालय, मुंबई (वूमन स्टडीज एक्सपर्ट)	सदस्य
ग) अध्यक्ष द्वारा नामित एक खिलाड़ी	श्री एमपी गणेश, पूर्व भाखेप्रा, 80 फीट रोड (प्राणी दया संघ के सामने) कोरामंगल, बंगलोर	सदस्य
घ) गैर-सरकारी संगठनों से छः प्रतिनिधि (प्रत्येक क्षेत्र से एक)	1. पश्चिमी क्षेत्र चेतना (स्वास्थ्य के क्षेत्र में युवाओं के साथ कार्यरत अग्रणीय गैर-सरकारी संगठन)	सदस्य
	2. दक्षिणी क्षेत्र धन फाउंडेशन, मदुरै, तमिलनाडु (ग्रामीण विकास के क्षेत्र में युवाओं के साथ कार्यरत अग्रणीय गैर-सरकारी संगठन)	सदस्य

	3. पूर्वी क्षेत्र सिनी, कोलकाता (युवाओं और किशोरों के साथ कार्यरत अग्रणीय गैर-सरकारी संगठन)	सदस्य
	4. उत्तरी क्षेत्र ममता, नई दिल्ली (स्वास्थ्य के क्षेत्र में युवाओं और किशोरों के साथ कार्यरत अग्रणीय गैर-सरकारी संगठन)	सदस्य
	5. पूर्वोत्तर क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी (ग्रामीण विकास के क्षेत्र में युवाओं के साथ कार्यरत अग्रणीय गैर-सरकारी संगठन)	सदस्य
	6. मध्य क्षेत्र यूथ फार यूनिटी एंड वालंटरी एक्शन (युवा), नागपुर (युवाओं के साथ कार्यरत अग्रणीय गैर-सरकारी संगठन)	सदस्य
ड.) क्षेत्र में विशेषज्ञ		
1. पर्यावरण	डा० नंदिता कृष्णन, निदेशक, सीपीआर फाउंडेशन, चेन्नै-18 (देश के प्रख्यात पर्यावरण विशेषज्ञ)	सदस्य
2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	प्रो० पी० बलराम, निदेशक (पदेन) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलोर (विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञ)	सदस्य
3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	डा० शांति रंगनाथन, निदेशक, टीटी रंगनाथन, क्लीनिकल रिसर्च फाउंडेशन, 54, 4 मेन रोड, इंदिरा नगर, चेन्नै-600020 (अग्रणीय सामाजिक कार्यकर्ता)	सदस्य
4. ग्रामीण विकास	1. डा० राधाकृष्णन, निदेशक, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुंबई (अग्रणीय ग्रामीण विकास विशेषज्ञ)	सदस्य
	2. प्रो० जी० पलानीदुर्गा, डीन, फैकल्टी आफ रूरल सोशल साइंसेस एंड हेड आफ द डिपार्टमेंट आफ पोलिटिकल, गांधी ग्राम रूरल साइंस इस्टीट्यूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी), गांधीग्राम, जिला-डिंडीगुल-624302, तमिलनाडु	सदस्य
5. व्यावसायिक	श्री अशोक कुमार, उप महानिदेशक (पदेन), डीजीई एंड	सदस्य

प्रशिक्षण	टी, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली (व्यावसायिक प्रशिक्षण विशेषज्ञ)	
xxxiii)	निदेशक, आरजीएनआईआईडी	सदस्य-सचिव

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए तथा सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को भेजी जाए ।

ए०के० सरन,
अवर सचिव,

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 2010

संख्या क्यू-16012/1/2009-ई एस ए (डब्ल्यू ई) : जबकि श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 12 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या क्यू-16012/1/2009-ई एस ए (डब्ल्यू ई) के तहत पुनर्गठित केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के संघटन को आम जनता की सूचना के लिए अधिसूचित करते हुए एक सदस्य का नाम अधिसूचित किया गया था और यह उल्लेख किया गया था कि बोर्ड के अन्य सदस्यों के नाम बाद में अधिसूचित किए जाएंगे ।

2. अतः, अब, आम जनता की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की नियमावली तथा विनियमों के नियम 3 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का सदस्य नामित किया जाता है :-

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

श्री के.के. मित्तल,
प्रधान सचिव, असम सरकार,
श्रम एवं रोजगार विभाग,
असम सचिवालय, दिसपुर,
ब्लॉक “डी”, तीसरी मंजिल,
गुवाहाटी-6.

3. बोर्ड के अन्य सदस्यों के नाम बाद में अधिसूचित किए जाएंगे ।

रणबीर सिंह
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक: 22 फरवरी, 2010

संख्या क्यू-16012/2/2009-ईएसए(एनएलआई): जबकि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (पंजाब संशोधन अधिनियम, 1957) के अंतर्गत वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर-24, नोएडा को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

और जबकि उक्त सोसाइटी के नियमों और विनियमों के नियम III में इसके गठन का प्रावधान है।

अतः अब, उपर्युक्त सोसाइटी के नियम III के अनुसरण में और पहले जारी की गई दिनांक 4.11.2009 तथा दिनांक 16.12.2009 की अधिसूचना के क्रम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा की सामान्य परिषद के सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है:

दो संसद सदस्य (लोक सभा एवं राज्य सभा प्रत्येक से एक):-

- | | | | |
|-----|---|---|-------|
| i) | डॉ. विनय कुमार पाण्डेय
संसद सदस्य
212, सम्राट होटल, नई दिल्ली | - | सदस्य |
| ii) | श्री रामचंद्र खूंटिया
संसद सदस्य
26, डॉ. आर. पी. मार्ग,
नई दिल्ली-110001 | - | सदस्य |

कामगार संगठन से एक प्रतिनिधि

(भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक संघ कांग्रेस से प्रतिनिधि)

- | | | |
|--|---|-------|
| श्री एस.एस. राव
प्रधान सचिव, एनएफआईआर
3, चेम्सफोर्ड मार्ग,
नई दिल्ली-110055 | - | सदस्य |
|--|---|-------|

प्रदीप गौड़
अवर सचिव

**MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS
(DEPTT. OF YOUTH AFFAIRS)**

New Delhi, the 2nd February 2010

RESOLUTION

No. F-15-4/2002-YS.-II—In partial modification of the Resolution of even number dated 1st August, 2008, the Executive Council of Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD) is reconstituted as under :

i)	Union Minister for Youth Affairs & Sports, Government of India, New Delhi	President
ii)	Minister of State for Youth Affairs & Sports, Government of India, New Delhi	Senior Vice-President
iii)	Secretary, Department of Youth Affairs, Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India, New Delhi	Vice-President (Ex-officio)
iv)	Shri C.R. Kesavan, 53 Bazullah Road, T. Nagar, Chennai, Tamil Nadu 600017	Vice President
v)	Joint Secretary (Youth Affairs), Department of Youth Affairs, Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India, New Delhi	Member
vi)	Financial Adviser, Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India, New Delhi	Member
vii)	Director, Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development	Member
viii)	Programme Adviser, NSS, Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India, New Delhi	Member
ix)	Dr. M.V. Rajeev Gowda, Associate Professor, IIM, Bangalore, 1361, 9 th Cross, JP Nagar I Phase, Bangalore-560078	Member
x)	Smt. Jayanti Natarajan, Alwarpet, Chennai – 600 004	Member
xi)	Shri C. Apok Jamir, MLA & Ex-MP (Rajya Sabha), Walujen, Hall Nagarjan, Dimapur, Nagaland – 797112	Member
xii)	Shri Harsh Mander, Flat No.6233, C-6, Vasant Kunj, New Delhi – 110 070	Member
xiii)	Vice Chancellor (by designation), Gandhigram Rural Institute, Deemed University, Gandhigram – 624 302, Dindigul district, Tamil Nadu, as representative of IDARA	Member
xiv)	One representative from the faculty of the four RGNIYD Divisions (by rotation)	Member
xv)	Shri Duli Chand Jain, Mylapore, Chennai – 600 004	Member
xvi)	Faculty Head	Member-Secretary

2. All Members of the Executive council except the President, Vice President at S.No. (ii) & (iii) and other Ex-officio members, shall hold office for a period of three years with effect from 7th August, 2007 or until their successors are elected/nominated whichever is earlier. The nomination of members listed at S.No. (iv), (ix) & (xi) above will be effective from 14.12.2007, 10.06.2008 and 10.06.2008 respectively.
3. Ministers/Members of Parliament/non-official members serving on the Executive Council of RGNIYD will be entitled to get TA/DA as per rules, for attending the meetings.
4. All Orders/ Resolutions issued earlier on the subject shall stand modified accordingly.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India and communicated to all concerned.

Ordered also that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations.

A. K. SARAN
Under Secy.

RESOLUTION

No. F-15-4/2002-YS.-II—In partial modification of the Resolution of even number dated 1st August, 2008 the Advisory Board of Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD) is reconstituted as under :

i)	Union Minister for Youth Affairs & Sports, Government of India, New Delhi	President
ii)	Minister of State for Youth Affairs & Sports, Government of India, New Delhi	Senior Vice-President
iii)	Secretary, Department of Youth Affairs, Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India, New Delhi	Vice-President (Ex-officio)
iv)	Joint Secretary (Youth Affairs), Department of Youth Affairs, Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India, New Delhi	Member
v)	Shri C.R. Kesavan, 53 Bazullah Road, T. Nagar, Chennai, Tamil Nadu 600017	Member
vi)	Financial Adviser, Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India, New Delhi	Member
vii)	Programme Adviser, NSS, Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India, New Delhi	Member
viii)	Smt. Jayanti Natarajan, Alwarpet, Chennai – 600 004	Member
ix)	Shri Harsh Mander, Flat No.6233, C-6, Vasant Kunj, New Delhi – 110 070	Member
x)	Vice Chancellor (by designation), Gandhigram Rural Institute, Deemed University, Gandhigram – 624 302, Dindigul district, Tamil Nadu, as representative of IDARA	Member
xi)	One representative from the faculty of the four RGNIYD Divisions (by rotation)	Member

xii)	Shri Duli Chand Jain, Mylapore, Chennai – 600 004	Member
xiii)	Dr. M.V. Rajeev Gowda, Associate Professor, IIM, Bangalore, 1361, 9 th Cross, JP Nagar I Phase, Bangalore-560078	Member
xiv)	Shri C. Apok Jamir, MLA & Ex-MP (Rajya Sabha), Walujen, Hall Nagarjan, Dimapur, Nagaland – 797112	Member
Other Members		
xv)	Secretary, Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India	Member
xvi)	Secretary, Department of Elementary Education & Literacy, Govt. of India	Member
xvii)	Secretary, Ministry of Women & Child Development, Govt. of India	Member
xviii)	Secretary, Ministry of Rural Development, Govt. of India, Krishi Bhawan, New Delhi	Member
xix)	Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India, Nirman Bhawan, New Delhi.	Member
xx)	Secretary, Ministry of Information & Broadcasting, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi.	Member
xxi)	Director (GA), Ministry of Environment & Wild Life, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi.	Member
xxii)	Secretary, Ministry of Labour, Govt. of India, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.	Member
xxiii)	Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi.	Member
xxiv)	Adviser (Education, Sports), Planning Commission, Yojana Bhawan, New Delhi	Member
xxv)	Director General, Council for Advancement of Peoples Action & Rural Technology, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi	Member
xxvi)	Chairman, Youth Hostels Association of India, No.5 Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi	Member
xxvii)	National Commission, The Bharat Scouts & Guide, 16 M.G. Marg, Indraprastha Estates, New Delhi	Member
xxviii)	Secretary, University Grants Commission, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.	Member
xxix)	Director General, National Cadet Corps, Ministry of Defence, West Block No.4, R.K. Puram, New Delhi -66	Member
xxx)	Director General, Nehru Yuva Kendra Sangathan, New Delhi	Member
xxxi)	Chairperson, Central Social Welfare Board, Sama Kalyan Bhawan, B-12, Tata Crescent, Qutub Institutional Area, New Delhi.	Member
xxxii) a) Two Eminent Educationists specially interested in Community Work, Training and Development	1. Dr. S. Parasuraman, Director, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai (Eminent Educationist)	Member
	2. Prof. Vimala Ramachandran, Head, Education Research Unit, New Delhi (leading Education Expert in the country)	Member

b) Two women with expertise and experience in women Development	1. Dr. Vina Mazumdar, Former Director, Centre for Women Development Studies (Women Studies expert)	Member
	2. Dr. Rupa B. Shah, Former Vice Chancellor, SNDT University, Mumbai (Women Studies expert)	Member
c) One Sportsperson nominated by the Chairperson	Shri M.P. Ganesh, ex-SAI, 424, 80 Feet Road (in front of Prani Daya Sangha), Koramangla, Bangalore	Member
d) Six representatives from Non Governmental Organisations (one from each region)	1. Western Region CHETNA (leading NGO working with Youth in the field of Health)	Member
	2. Southern Region DHAN Foundation , Madurai, Tamil Nadu (leading NGO working with Youth in the field of Rural Development)	Member
	3. Eastern Region CINI , Kolkata (leading NGO working with Youth and Adolescents)	Member
	4. Northern Region MAMTA , New Delhi (leading NGO working with Youth and Adolescents in the field of Health)	Member
	5. North Eastern Region North East Network (NEN) , Guwahati (leading NGO working with Youth in the field of Rural Development)	Member
	6. Central Region Youth for Unity and Voluntary Action (YUVA) , Nagpur (leading NGO working with Youth)	Member
e) Specialists in the field of		
1. Environment	Dr. Nandita Krishnan, Director, CPR Foundation, Chennai-18 (Renowned Environmental Expert in the Country).	Member
2. Science and Technology	Prof. P. Balram, Director (ex-Officio), Indian Institute of Sciences, Bangalore (Expert in Science and Technology)	Member

3. Health & Family Welfare	Dr. Shanti Ranganathan, Director, T.T. Ranganathan Clinical Research Foundation, 54, 4 th Main Road, Indira Nagar, Chennai -600020 (leading Social Activist)	Member
4. Rural Development	1. Dr. Radhkrishna, Director, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai (leading Rural Development Expert)	Member
	2. Prof. G. Palanidurga, Dean, Faculty of Rural Social Sciences and Head of the Department of Political, Gandhigram Rural Science Institute (Deemed University), Gandhigram, Dindigul Dist. - 624302, Tamil Nadu	Member
5. Vocational Training	Shri Ashok Kumar, Deputy Director General (ex-Officio), DGE&T, Ministry of Labour, New Delhi (Expert on Vocational Training)	Member
xxxiii)	Director, RGNIYD	Member Secretary

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India and communicated to all concerned.

Ordered also that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations.

(A. K. Saran)
Under Secretary

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 18th February 2010

No.Q-16012/1/2009-ESA(WE): Whereas in the Ministry of Labour Notification No. Q-16012/1/2009-ESA(WE) dated the 12th February, 2010 notifying the composition of the reconstituted Central Board For Workers Education for information of the public, wherein the name of a member was notified and it was mentioned that the names of other members of the Board will be notified later.

2. Now, therefore, it is notified for information of the public that the following person is nominated as member of Central Board For Workers Education as per rule 3 of Rules & Regulations of the Board.

REPRESENTATIVE OF STATE GOVERNMENT

Shri K.K.Mittal

Principal Secretary to the Government of Assam,
Labour & Employment Department,
Assam Sachivalaya, Dispur,
Block-"D", 3rd Floor,
Guwahati-6.

3. The name of the other members of the Board will be notified later.

RANBIR SINGH
Director

New Delhi, the 22nd February 2010

No.Q-16012/2/2009-ESA(NLI). **WHEREAS** the V.V.Giri National Labour Institute, Sector-24, NOIDA has been registered as a Society under Societies Registration Act 1860(Punjab Amendment Act,1957).

AND WHEREAS Rule III of the Rules & Regulations of the said Society provides for its constitution.

NOW, therefore in pursuance of Rule III of the aforesaid Society, and in continuation of the earlier Notification dated 4.11.2009 and dated 16.12.2009, the following persons are nominated as members of the General Council of V.V.Giri National Labour Institute, NOIDA:

Two Members of Parliament (one each from Lok Sabha and Rajya Sabha):-

- | | | | |
|-----|---|---|--------|
| i) | Dr.Vinay Kumar Pandey
Member of Parliament
212, Samrat Hotel, New Delhi. | - | Member |
| ii) | Shri Rama Chandra Khuntia
Member of Parliament
26, Dr. R.P.Road,
New Delhi-110001. | - | Member |

One Representative from 'Workers' Organization':-

(Representative from Indian National Trade Union Congress)

Shri S.S.Rao Principal Secretary, NFIR 3, Chelmsford Road New Delhi-110055	-	Member
---	---	--------

PRADEEP GAUR
Under Secy.